

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  
(मिनिरातना कंपनी)  
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited

(A Miniratna Company)  
(A subsidiary of Coal India Limited)

## जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



**CIN- U10102MP1985GOI003160**

**An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company**

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: [pro.ncl@coalindia.in](mailto:pro.ncl@coalindia.in) website : [www.nclcil.in](http://www.nclcil.in)

पत्रक० एनसीएल / ज०स०वि० / प्रेसवि० / 2017-18 / 474

दिनांक - 12 / 12 / 2017

### प्रेस विज्ञप्ति

#### **मुख्यालय बना एनसीएल अंतर क्षेत्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की टीम चैंपियनशिप का विजेता**

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के मुख्यालय की टीम ने एनसीएल अंतर क्षेत्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2017-18 की टीम चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। कंपनी के बीना क्षेत्र के श्रमिक मनोरंजनालय में खेले जा रही प्रतियोगिता के फाइनल में मंगलवार को एनसीएल मुख्यालय ने नेहरू शताब्दी चिकित्सालय (एनएससी), जयंत की टीम को 2-1 से हराया।

फाइनल के पहले मैच में मुख्यालय के अनूप और एनएससी के डॉ. डी. जे. बोरा के बीच एकल मुकाबला हुआ, जिसमें दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। अनूप ने सीधे सेटों में 21-16, 21-15 से जीत दर्ज कर फाइनल में अपनी टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई। इसके बाद मुख्यालय के धीरेन्द्र नाथ तिवारी एवं अनूप और एनएससी के डॉ. डी. जे. बोरा एवं डॉ. हरीश की जोड़ियों के बीच युगल मुकाबला खेला गया। इस बार एनएससी की जोड़ी ने सीधे सेटों में जीत दर्ज कर फाइनल में अपनी टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा और 21-17, 21-12 की जीत के साथ अपनी टीम को फाइनल में 1-1 की बराबरी दिलाई।

फाइनल में निर्णायक मैच मुख्यालय के धीरेन्द्र नाथ तिवारी और एनएससी के विजय कुमार के बीच खेला गया, जो कि बेहद एकतरफा साबित हुआ। धीरेन्द्र नाथ तिवारी ने बेहद आसानी से 21-4, 21-7 से जीत दर्ज कर अपनी टीम का टीम चैंपियनशिप पर कब्जा बरकरार रखा। प्रतियोगिता में गत वर्ष भी टीम चैंपियनशिप में यही परिणाम रहा था और मुख्यालय की टीम विजेता एवं एनएससी की टीम उपविजेता बनी थी।

चार दिवसीय प्रतियोगिता में एनसीएल के सभी 10 क्षेत्रों, केंद्रीय कर्मशाला (सीडब्ल्यूएस) जयंत, एनएससी जयंत और एनसीएल मुख्यालय सहित 13 टीमों के 104 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में टीम चैंपियनशिप के अतिरिक्त पुरुष एकल, पुरुष युगल और 45 वर्ष से अधिक खिलाड़ियों की एकल एवं युगल वर्ग की 5 स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है।

जनसंपर्क अधिकारी